

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी 2022 — फाल्गुन 3, शक 1943

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2022

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-9/2021/34-2/149.— विभागीय आदेश दिनांक 10-01-2012 में आंशिक संशोधन करते हुये छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करता है :-

स. क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है.	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित उपखंड कार्यालय)	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	05 कार्य दिवस	मेकेनिक/प्रभारी उप अभियंता	सहायक अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित उप खंड कार्यालय)	कार्यपालन अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित खंड कार्यालय)
2	सहायक अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित उपखंड कार्यालय)	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार	05 कार्य दिवस	मेकेनिक/प्रभारी उप अभियंता	सहायक अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित उप खंड कार्यालय)	कार्यपालन अभियंता (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित खंड कार्यालय)
3	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड	नलकूप खनन की अनुमति	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड	जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी	संबंधित जिले के कलेक्टर

2. शेष अन्य सेवायें यथावत् रहेगी.

टीप :- हैण्डपंपों में सुधार टोल फ्री टेलीफोन क्रमांक 18002330008 पर किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.